


**ntc Industries Ltd.**  
Regd. Office: 149, B.T.Road,  
Kamarhati, Kolkata -700 058 ;  
Ph:+91 33 30190513,  
e-mail id: investors@ntcind.com,  
Website: www.ntcind.com  
(CIN: L70109WB1991PLC053562)  
**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant  
to regulation 29 of the Listing  
Regulations that a meeting of the  
Board of Directors of the Company  
will be held on Thursday, the  
14th September, 2017 at 02.30 p.m.  
at its Registered Office to inter  
alia consider and approve the  
Un-audited Financial Results of the  
Company for the quarter ended  
30th June, 2017.

 **Head Office, LOKMANGAL**  
1501, SHIVAJINAGAR, PUNE-411005  
**RFP- NOTICE**  
Bank of Maharashtra invites bids from eligible Legal Counsel for QIP. Last  
date for bid submission is 05:00 PM on Sep 25, 2017. Details are available  
in Bank's website: [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in)  
**Deputy General Manager, FM & A**

 **NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL**  
EE (CP) DIVISION, CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT  
ROOM NO. 1611, 16<sup>th</sup> FLOOR, PALIKA KENDRA, SANJAY MARG  
NEW DELHI - 110001  
**e-Procurement Tender Notice**  
**Name of Work** : DEVELOPMENT OF CENTRAL PARK, CONNAUGHT PLACE.  
**SH** : OPENING UP OF GATE AT CENTRAL PARK IN FRONT OF  
**F-BLOCK, CONNAUGHT PLACE.**  
**Tender ID No.** : 2017\_NDMC\_135089\_2  
**Estimated Cost** : Rs. 6,23,078/-  
**EMD** : Rs. 12,462/-  
**Time** : Three Months  
**Date of release of tender through e-procurement solution:** 08.09.2017  
**Last date/time for receipt of tenders through**  
**e-procurement solution** : 15.09.2017 at 4:00 PM  
**Further details can be seen at** <https://govtprocurement.delhi.gov.in> **Sd/-**  
**Executive Engineer (CP)**


 **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**  
**AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA**  
**Corrigendum No. 07 (Tender ID: 2017\_AAL\_1142\_1)**  
**Tender No.: AAL/CNS-P)-05/2017-18**  
**Work:** Supply Installation Testing & Commissioning of HF Receivers, HF  
Broad Band Antenna and Associated Accessories. Closing Date & Time for  
downloading & submission of Tender Documents has been changed to **25/09/2017,**  
**1700 hrs.** Opening Date & Time of Tender fee Pack-1 & Pack-2 has been changed to  
**27/09/2017, 1100 hrs.** and **27/09/2017, 1500 hrs.** respectively. For details refer  
CPP Portal: <http://etenders.gov.in/eprocure/app>. **N-100/2017-18**

 **BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LIMITED**  
Regd Office: 1301, 13<sup>th</sup> Floor, Vijaya Building 17, Barakhamba Road,  
Connaught Place, New Delhi-110001.  
Corp. Office: B-66, Sector 60, NOIDA-201301.  
**NOTICE**  
Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the Members of the  
Company will be held on **Wednesday, the 27th September, 2017 at 04.30 p.m.** at A-81, Bipin  
Chandra Pal Memorial Trust, C.R. Park, New Delhi-110019. The notice in physical form  
together with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013, has  
already been sent to the Members of the Company at their registered address.  
**NOTICE** is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register  
of Members of the Company and Share Transfer Books shall remain closed from **21<sup>st</sup>**  
**September, 2017 to 27<sup>th</sup> September, 2017,** for the purpose of 28th Annual General Meeting  
of the Company convened on **27<sup>th</sup> September, 2017.**  
**By Order of the Board of Directors**  
**For BGIL Films & Technologies Limited Sd/**  
**Dhiva Sharma**  
**(Company Secretary)**  
**Date:** 2.09.2017  
**Place:** Noida

**POLYCON International Ltd.**  
Regd. Office : Rotary Bhawan, Church Road, M.I. Road, Jaipur-302001  
CIN : L28992RJ1991PLC006265 • Website: [www.polyconltd.com](http://www.polyconltd.com)  
Phone: 0141-2363048, 2363049 • Fax : 0141-2377046 • Email : [info@polyconltd.com](mailto:info@polyconltd.com)  
**Notice of Annual General Meeting & Book Closure**  
Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the  
Company will be held on **Friday, 29th September, 2017 at 1:00**  
**P.M.** at the Registered Office of the Company at Rotary Bhawan,  
Church Road, M.I. Road, Jaipur-302001. Notice of Meeting  
setting out the ordinary & special businesses to be transacted  
thereat and Annual Report is being sent to the members to their  
registered address by permitted mode and also by email whose  
email address is registered with the Company.  
Members are hereby informed that the Notice of the 26th Annual  
General Meeting and Annual Report will be available on the  
website of the Company [www.polyconltd.com](http://www.polyconltd.com) and will also be  
available for inspection at the registered office of the Company on  
all working days during business hours of the Company.  
Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the  
relevant rules made there under & Regulations 44 of the Listing  
Regulations, the company is pleased to provide the facility to the  
members to exercise their right to vote by electronic means on all  
the resolutions set forth in the notice of the 26th Annual General  
Meeting (AGM). The cut-off date for the purpose of reckoning  
eligibility of members for e-voting is **Friday, 22nd September,**  
**2017. The e-voting process shall begin on September 26, 2017 at**  
**09:00 A.M.** and ends on **September 28, 2017 by 5:00 P.M.** The e-  
voting module shall be disabled by the CDCL for voting thereafter.  
The e-voting facility is available to the members to cast their votes  
at the following link <https://www.evotingindia.com>.  
Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the  
Companies Act 2013 read with Regulation 42 of the Listing  
Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books  
of the Company will remain closed from **23rd September, 2017 to**  
**29th September, 2017 (both days inclusive)** for the purpose of  
Annual General Meeting.  
Any query or grievances in relation electronic voting may be  
addressed to the Company Secretary or can be forwarded at  
[guptag@polycon.in](mailto:guptag@polycon.in).  
**For Polycon International Ltd. Sd/**  
**GAJANAND GUPTA**  
**(COMPANY SECRETARY)**  
**Place : Jaipur**  
**Date : 07.09.2017**

**S. R. INDUSTRIES LIMITED**  
CIN: L29246PB1989PLC009531  
Regd. Office: E-217, Industrial Area Phase II, Mohali  
TEL.No.: 0172-4602888 Email: [info@srfootwears.com](mailto:info@srfootwears.com)  
**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with  
Regulation 47 of the SEBI (Listing  
obligations and disclosure requirements)  
Regulations, 2015, notice is hereby given  
that 186<sup>th</sup> Meeting of Board of Directors of  
the company is scheduled to be held on  
Thursday, the 14<sup>th</sup> day of September,  
2017, to inter-alia, consider and approve  
the Company's Audited Financial Results  
for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2017.  
The information is also available on the  
Company's website i.e.  
[www.srfootwears.com](http://www.srfootwears.com) and also on the  
website of the stock exchange, where  
securities of the company are listed, viz.  
BSE Ltd. - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). (Scrip  
code: 513515, Scrip Name: SRIND).  
**Date:** September 07, 2017 **For S. R. Industries Limited**  
**Place:** Mohali **Company Secretary**

**INDIAN SUCROSE LIMITED**  
CIN: L15424PB1990PLC010903  
**Registered Office – G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211**  
**Phone:** +91-9115110651/52/53 **Website:** [www.muksuo.com](http://www.muksuo.com)  
**Email:** [yaducare@gmail.com](mailto:yaducare@gmail.com), [isl.investor@yaducorporation.com](mailto:isl.investor@yaducorporation.com)  
**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE**  
NOTICE is hereby given that the 26th Annual general Meeting (AGM) of the members  
of Indian Sucrose Limited will be held on Saturday, 30th September, 2017 at 11:00  
A.M. at G.T. ROAD, MUKERIAN-144211, DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB to transact the  
business contained in the Notice of the said AGM. The statement pursuant to Section  
102 of the Companies Act, 2013 has been annexed to the notice of AGM which has  
been dispatched to the shareholders of the company.  
NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and  
Regulation 42 of the (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,  
2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will  
remain closed from September 25, 2017 to September 30, 2017 (both days inclusive)  
for the purpose of Annual General Meeting of the company  
**By Order of the Board of Director**  
**For Indian Sucrose Limited Sd/-**  
**Kunal Yadav**  
**(Managing Director)**  
**Place:** New Delhi  
**Date:** 25-08-2017

 **SHRISTI**  
WELCOME TO LIFE  
**Shristi Infrastructure Development Corporation Limited**  
Regd. Office : Plot No. X - 1, 2 & 3, Block-EP Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700 091  
CIN: L65922WB1990PLC049541  
Tel : +91 33 4020 2020, Fax : +91 33 4020 2099  
E-mail : [investor.relations@shristicorp.com](mailto:investor.relations@shristicorp.com), Website : [www.shristicorp.com](http://www.shristicorp.com)

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2017**

Sl. No.	Particulars	₹ In Lakhs)	
		Quarter Ended 30.06.2017 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2016 Unaudited
1	Total Income from Operations	2,311.20	2,191.49
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	100.04	36.38
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	100.04	36.38
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	68.04	19.38
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	68.04	15.39
6	Equity Share Capital	2,220	2,220
7	Earning Per Share (of ₹10/- each) - Basic & Diluted (₹)	0.31	0.07


Note: 1. The above unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 8th September 2017. The Statutory Auditors have carried out "Limited Review" of the aforesaid financial results for all the periods presented. 2. The above is an extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2017 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial Results for the Quarter ended 30th June 2017 are available on the Stock Exchange's website: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.shristicorp.com](http://www.shristicorp.com). 3. The Standalone financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016. The Company has adopted Ind AS from 1st April, 2017 with a transition date of 1st April 2016 and accordingly the financial results for the quarters ended 30th June 2016 and 30th June 2017 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind-AS 34 "Interim Financial Reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) and SEBI Circular dated 5th July 2016. 4. The Board of Directors in their meeting held on 14th February 2017 have approved a scheme of arrangement pursuant to section 230, 232 and other applicable provisions of the Companies Act 2013, for (1) Amalgamation of East Kolkata Infrastructure Development Private Limited (wholly owned subsidiary of the Company) with the Company and (2) Demerger of hospitality business of the Company to Vipani Hotels & Resorts Private Limited (wholly owned subsidiary of the Company) which would be listed with a mirror shareholding as that of the Company. Appointed date of the Scheme is 01.01.2017. SEBI, BSE and CSE have given their approval for the Scheme. The Scheme is subject to various other regulatory approvals. Pending such approvals, the Scheme has not been accounted for in the accompanying financial results for the quarter.  
**For and on behalf of the Board of Directors**  
**Shristi Infrastructure Development Corporation Limited**  
**Sunil Jha**  
**Place : Kolkata**

 **PACIFIC INDUSTRIES LIMITED**  
Registered Office: Survey No. 13, N.H.48, Kempalinganahalli  
Village, Nelamangala Taluk, Bangalore-Karnataka 562123  
Tel No. +91-8027723004; Fax: +91-8027723005  
Corporate Office: Village Bedla, P.O. Box 119, Udaipur-313001  
Tel No. +91-294-2440196, 2440388; Fax: +91-294-2440780  
Email: [pacificinvestor@rediffmail.com](mailto:pacificinvestor@rediffmail.com); Website: [www.pacificindustriesltd.com](http://www.pacificindustriesltd.com)  
CIN: L14101KA1989PLC062041  
**NOTICE**  
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing  
Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that  
Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on  
Thursday, 14th September, 2017 at 4.00 P.M. at the Corporate Office  
of the company at Village - Bedla, Udaipur - 313001 to consider and  
approve the Unaudited Quarterly Financial Results for the quarter  
ended on June 30, 2017.  
**By order of the Board**  
**for Pacific Industries Limited Sd/-**  
**(J. P. AGARWAL)**  
**Chairman & Managing Director**  
**Date : 06/09/2017**  
**Place : Bangalore**

 **BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITED**  
Regd. office:- 1301, Vijaya Building 17, Barakhamba Road,  
Connaught Place, New Delhi - 110001.  
Corp Office:- B-66, Sector-60, Noida-201301. CIN: L74999DL1994PLC062967  
**NOTICE**  
NOTICE is hereby given to the members of the Bharatiya Global Infomedia Limited,  
pursuant to the section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the  
Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation  
44(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the  
Company is offering facility to all its members to exercise their right to vote on resolutions  
to be passed in the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be  
held on September 26, 2017 at 1:00 P.M. at the Registered Office of the Company at  
Rotary Bhawan, Church Road, M.I. Road, Jaipur-302001.

**Office of The Chief Engineer,**  
**Electric Maintenance & Rural**  
**Electrification Wing, Jammu**  
**Power Development Department**  
**Email:** [cmre.jammu2@gmail.com](mailto:cmre.jammu2@gmail.com)  
**Tel No.** 0191-2554426 **Fax No.** 0191-2505706  
**e-NIT No.** CEMREJMUSHRINES/10 of 2017  
**Dated:** 05.09.2017  
**1. INVITATION**  
For and on behalf of the Governor Jammu and  
Kashmir state, Chief Engineer EM&RE Wing,  
Jammu invites online e-bids from reputed com-  
panies or Class 'A' registered contractors for  
Survey, design, supply, transport, erection, test-  
ing and commissioning of 11 KV dedicated  
feeders from 33 KV receiving station Mallpeth to  
Gori Shanker Mandir Sarkoot and Astan  
Bala Kishwar Shrinies and allied works.  
1. Bidders are advised to study the Bidding  
Document carefully. Submission of e-Bid  
against this SBD shall be deemed to have been  
done after careful study and examination of the  
procedures, terms and conditions of the  
Standard Bidding Document with full under-  
standing of its implications.  
2. The tender document is available at website  
<http://ktenders.gov.in>.  
**Sd/-**  
**(Ashwanj Gupta)**  
**Chief Engineer**  
**Electric M&RE Wing**  
**Jammu**  
**No:** CEJ/TS/PS/7377-92  
**Dated:** 05.09.2017  
**DIP/J-5151**

[Pursuant to rule 30 of the Companies  
(Incorporation) Rules, 2014]  
**Before the CENTRAL GOVERNMENT**  
**REGIONAL DIRECTOR**  
In the matter of the Companies Act, 2013,  
Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule  
30(6) (a) of the Companies (Incorporation)  
Rules, 2014:  
**AND**  
In the matter of Avenra Techpro (OPC) Private  
Limited (CIN U51900DL2016OPC30622  
having its registered office at F-65, Gali No. -  
West Jyoti Nagar Extn, West Delhi-110093  
India .....(Petitioner)  
Notice is hereby given to the General Public that  
the company proposes to make application to  
the Central Government under-Section 13 (4) of  
the Companies Act, 2013 seeking confirmation  
of alteration of the Memorandum of Association  
of the Company in terms of the special resolution  
passed at the EGM held on **07/09/2017** to  
enable the company to change its Registered  
office from the NCT of Delhi to the State of  
Telangana.  
Any person whose interest is likely to be affected  
by the proposed change of the registered office  
of the company may deliver either on the MCA-  
21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor  
complaint form or cause to be delivered or  
sent by registered post of his/her objections  
supported by an affidavit stating the nature of  
his/her interest and grounds of opposition to the  
Regional Director, Northern Region, B-2  
Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO  
Complex, New Delhi - 110003 with a copy of  
petitioner Companies at its registered office &  
Mr. Vijay Kumar Sharma Practicing Company  
Secretary, VS ASSOCIATES, A-52, Lower

 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**  
1911 से आपका लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911  
**BRANCH OFFICE: ANGEL PUBLIC SCHOOL, DELHI**  
**POSSESSION NOTICE (For Immoveable Property)**  
**(Appendix-IV) Sec Rule 8(i)**  
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the  
**Central Bank of India, Angel Public School Delhi Branch,** under  
the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers  
conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security  
Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued Demand Notice dated  
28/03/2017 calling upon the Borrower **Smt. Poonam Gupta W/o Sh.**  
**Prem Sagar Gupta And Sh. Hemant Gupta S/o Sh. Prem Sagar**  
**Gupta And Sh. Prem Sagar Gupta S/o Sh. Suresh Chand Gupta,**  
to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.13,85,864/-**  
**(Thirteen Lakh Eighty Five Thousand Eight Hundred Sixty Four**  
**Only)** within 60 days from the date of receipt of the said notice. The  
Borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is  
hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that  
the undersigned has **taken possession** of the property described  
herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-  
section (4) of Section 13 of the Act read with the Rule 8 of the Security



# मुख्यमंत्री योगी समेत चार मंत्री विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए

लखनऊ, 8 सितंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दो उप मुख्यमंत्रियों समेत भाजपा के चार उम्मीदवार शुक्रवार को विधान परिषद के उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपचुनाव में विधान परिषद की पांचवीं सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार मंत्री मोहसिन रजा का निर्वाचन लगभग तय, योगी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों मायावती और अखिलेश यादव की तरह उच्च सदन के सदस्य चुने गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दो उप मुख्यमंत्रियों समेत भाजपा के चार उम्मीदवार शुक्रवार को विधान परिषद के उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपचुनाव में विधान परिषद की पांचवीं सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार मंत्री मोहसिन रजा का निर्वाचन लगभग तय, योगी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों मायावती और अखिलेश यादव की तरह उच्च सदन के सदस्य चुने गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दो उप मुख्यमंत्रियों समेत भाजपा के चार उम्मीदवार शुक्रवार को विधान परिषद के उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपचुनाव में विधान परिषद की पांचवीं सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार मंत्री मोहसिन रजा का निर्वाचन लगभग तय, योगी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों मायावती और अखिलेश यादव की तरह उच्च सदन के सदस्य चुने गए हैं। विधान परिषद की पांचवीं सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार चक्क राज्ज मंत्री मोहसिन रजा का निर्वाचन लगभग तय है। इस सीट के लिए नामांकन की अवधि गुरुवार को समाप्त हो चुकी है और उनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा है। शुक्रवार को हुई जांच में उनका नामांकन भी वैध पाया गया। राज्यमंत्री मोहसिन रजा बसपा सदस्य ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा रिक्त की गई सीट पर राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। सिंह का कार्यकाल पांच मई 2018 को खत्म हो रहा था। इस सीट पर नाम वापस की आखिरी तारीख 11 सितंबर है। उम्मीद है कि उसी दिन रजा को भी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

## टेलीफोन एक्सचेंज मामले

# अगले माह होंगे मारन के खिलाफ आरोप तय

चेन्नई, 8 सितंबर (भाषा)।

सीबीआई की विशेष अदालत अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मारन बंधुओं के खिलाफ तीन अक्टूबर को आरोप तय करेगी। सीबीआई मामले के विशेष न्यायाधीश एस नटराजन के समक्ष शुक्रवार पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और चार अन्य आरोपी पेश हुए। न्यायाधीश ने आरोप तय करने के लिए तीन अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। दयानिधि के भाई कलानिधि ने सीबीआई की अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दाखिल की थी। यह मामला दयानिधि मारन के 2004 से 2007 के बीच केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रहने के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड के 764 हाई स्पीड डाटा लाइंस के गलत इस्तेमाल के आरोपों से जुड़ा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इन डाटा लाइनों का इस्तेमाल सन टीवी के लिए किया गया था और इसमें

**ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली**  
4था तल, जीवन दाग भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अंतर्गत सूचना ओ.ए. नं. 155/2017 के मामले में

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री सचिन कौशिक एवं अन्य आवेदक प्रतिवादीगण

सेवा में  
डी-3 दीपक त्यागी, पुत्र श्री धरमवीर त्यागी, निवासी: एच.नं. 1191, सेक्टर-3, वसुन्धरा, उ.प्र.-201012

कार्यालय: मैक्स लाइफ इंश्योरन्स क.लि., क्षेत्र विकास प्रबंधक (इम्प. आईडी-DEL3789)  
बीसी-2, 4 तल, महालक्ष्मी प्लाजा, सेक्टर-3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.-201010

जैसा कि, ऊपर उल्लिखित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की स्तुति के लिए साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतः विज्ञापन द्वारा इस सूचना के माध्यम से आपको निर्देश दिया जाता है कि 12.10.2017 को 10.30 पूर्वा. में के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि इस अधिकरण के समक्ष उपरोक्त तिथि को आपके उपस्थित नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी।

अधिकरण के आदेश से,  
सहायक रजिस्ट्रार, बीआरटी-III, नई दिल्ली

**INDIAN SUCROSE LIMITED**  
CIN: L15424PB1990PLC010903  
Registered Office - G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211  
Phone: +91-9115110651/52/53 Website: www.muksuo.com  
Email: yaducare@gmail.com, isl.investor@yaducorporation.com

**NOTICE OF REMOTE E-VOTING INFORMATION**  
NOTICE is hereby given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through remote e-Voting Services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

For the purpose, the company has fixed 23rd September, 2017 as cut-off-date for determining the eligibility of Members, holding shares either in physical form or in dematerialized form, who will be entitled to cast their votes electronically during 27th September, 2017 (9:00 a.m.) to 29th September, 2017 (5:00 p.m.), in respect of business to be transacted at the aforesaid Annual General Meeting of the company.

By Order of the Board of Director  
For Indian Sucrose Limited  
Sd/-  
Kunal Yadav  
(Managing Director)

Place: New Delhi  
Date: 25-08-2017

**INDIAN SUCROSE LIMITED**  
CIN: L15424PB1990PLC010903  
Registered Office - G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211  
Phone: +91-9115110651/52/53 Website: www.muksuo.com  
Email: yaducare@gmail.com, isl.investor@yaducorporation.com

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE**  
NOTICE is hereby given that the 26th Annual general Meeting (AGM) of the members of Indian Sucrose Limited will be held on Saturday, 30th September, 2017 at 11:00 A.M. at G.T. ROAD, MUKERIAN-144211, DISTT. HOSHIARPUR PUNJAB to transact the business contained in the Notice of the said AGM. The statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 has been annexed to the notice of AGM which has been dispatched to the shareholders of the company.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from September 25, 2017 to September 30, 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the company

By Order of the Board of Director  
For Indian Sucrose Limited  
Sd/-  
Kunal Yadav  
(Managing Director)

Place: New Delhi  
Date: 25-08-2017

**CRAZYPRICING ONLINE SERVICES LIMITED**  
Regd off: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085  
Email id: crazypricingdel@gmail.com, Website: www.crazypricingonline.com  
Ph No: 011-55999967, CIN: L74999DL1984PLC018747

**NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE**  
Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Crazypricing Online Services Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 27, 2017, at 11:00 A.M. at Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085, to transact the business as specified in the Notice convening the Annual General Meeting. The Notice of AGM and Annual Report for the year ended March 31, 2017 have been separately sent in electronic mode to all those members whose email addresses are registered with the company/Depository Participants.

क्र. सं.		कर्जदार(रों) का नाम	गारंटर(रों) का नाम	बकाया राशि, जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति/या बेची जा रही है/हैं	स्वामित्व विलेख धारकों के नाम	सम्पत्ति/या का विवरण	सुरक्षित मूल्य (₹.)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
<p>प्रधिकृत अधिकारी का विवरण, शाखा का पता, नाम : त्रिलोक चन्द तंवर, शाखा का फोन नंबर : 011-26425673, ई-मेल आईडी : trilok.chand@sbi.co.in शाखा की ई-मेल आईडी : sbi.51521@sbi.co.in मोबाइल नंबर : 9910107301, लैंडलाइन नंबर (कार्यालय) : 26425674</p>								
1.	श्री अमित मेहरा पुत्र श्री राधे रमण मेहरा	श्री नरेन्द्र यादव पुत्र श्री मनवीर सिंह	19-08-2017 तक ₹. 16,90,043/- + उस पर 01-12-2014 से ब्याज + खर्च एवं लागतें मांग सूचना की तिथि : 08-10-2013	श्री अमित मेहरा पुत्र श्री राधे रमण मेहरा	भूमि और भवन फ्लैट नंबर जी-6, प्लॉट नंबर सी-34, प्रकृति रेजीडेंसी अपार्टमेंट, माडल टाउन, गाजियाबाद, परिमाण 55.74 वर्ग मीटर	भूमि और भवन फ्लैट नंबर जी-6, प्लॉट नंबर सी-34, प्रकृति रेजीडेंसी अपार्टमेंट, माडल टाउन, गाजियाबाद, परिमाण 55.74 वर्ग मीटर	₹. 15.50 लाख	तिथि : 25-09-2017 समय : दो घंटे दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ
<p>धरोहर राशि (ईएमडी) बोलौ वृद्धि राशि प्रतिभागिता पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय दिनांक 24-09-2017 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक</p>								
2.	श्रीपती आशा रानी पत्नी श्री दीप नारायण एवं श्री दीप नारायण पुत्र श्री राम प्रीत सिंह	श्री दीना नाथ कुमार पुत्र श्री दिनेश प्रसाद	23-08-2014 तक ₹. 13,59,321/- + उस पर 01-07-2014 से ब्याज + खर्च एवं लागतें मांग सूचना की तिथि : 20-08-2014	श्री दीप नारायण पुत्र श्री राम प्रीत सिंह एवं श्रीमती आशा रानी पत्नी श्री दीप नारायण	भूमि और भवन फ्लैट नंबर जी-1, मू तल (छत का अधिकार नहीं) प्लॉट नंबर सी-74, दिलशाद एक्सटेंशन-11, गाजियाबाद, परिमाण 650 वर्ग फीट	भूमि और भवन फ्लैट नंबर जी-1, मू तल (छत का अधिकार नहीं) प्लॉट नंबर सी-74, दिलशाद एक्सटेंशन-11, गाजियाबाद, परिमाण 650 वर्ग फीट	₹. 15.00 लाख	तिथि : 25-09-2017 समय : दो घंटे दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ
<p>धरोहर राशि (ईएमडी) बोलौ वृद्धि राशि प्रतिभागिता पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय दिनांक 24-09-2017 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक</p>								
3.	अमित कुमार गोस्वामी पुत्र श्री परमानंद गिरि	श्री ऋषभ शर्मा पुत्र श्री रमा कान्त शर्मा	18-08-2017 तक ₹. 10,32,589/- + उस पर 01-01-2016 से ब्याज + खर्च एवं लागतें मांग सूचना की तिथि : 07-05-2016	अमित कुमार गोस्वामी पुत्र श्री परमानंद गिरि	भूमि और भवन फ्लैट नंबर 29 बी, प्रथम तल, गोविंदपुरम रेजीडेंसी, गाजियाबाद, 84.8 वर्ग मीटर	भूमि और भवन फ्लैट नंबर 29 बी, प्रथम तल, गोविंदपुरम रेजीडेंसी, गाजियाबाद, 84.8 वर्ग मीटर	₹. 13.60 लाख	तिथि : 25-09-2017 समय : दो घंटे दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ
<p>धरोहर राशि (ईएमडी) बोलौ वृद्धि राशि प्रतिभागिता पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय दिनांक 24-09-2017 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक</p>								
4.	श्री आशीष कुमार पुत्र श्री गोपाल कुमार	श्री हरीश त्यागी पुत्र श्री निरंजन त्यागी	19-08-2017 तक ₹. 20,61,911/- + उस पर 01-05-2014 से ब्याज + खर्च एवं लागतें मांग सूचना की तिथि : 20-08-2014	श्री आशीष कुमार पुत्र श्री गोपाल कुमार	भूमि और भवन फ्लैट नंबर 7 बी, गोविंदपुरम रेजीडेंसी, गाजियाबाद, परिमाण 1098 वर्ग फीट	भूमि और भवन फ्लैट नंबर 7 बी, गोविंदपुरम रेजीडेंसी, गाजियाबाद, परिमाण 1098 वर्ग फीट	₹. 12.35 लाख	तिथि : 25-09-2017 समय : दो घंटे दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ
<p>धरोहर राशि (ईएमडी) बोलौ वृद्धि राशि प्रतिभागिता पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय दिनांक 24-09-2017 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक</p>								
5.	श्री किशन कुमार पुत्र श्री केशव लाल	श्री बबलू मंडल	23-08-2017 तक ₹. 16,29,786/- + उस पर 01-02-2015 से ब्याज + खर्च एवं लागतें मांग सूचना की तिथि : 03-07-2015	श्री किशन कुमार पुत्र श्री केशव लाल	भूमि और भवन फ्लैट नंबर एफ-4, बैकसाइड, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 1/37, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-11, गाजियाबाद, परिमाण 750 वर्ग फीट	भूमि और भवन फ्लैट नंबर एफ-4, बैकसाइड, प्रथम तल, प्लॉट नंबर 1/37, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-11, गाजियाबाद, परिमाण 750 वर्ग फीट	₹. 16.54 लाख	तिथि : 25-09-2017 समय : दो घंटे दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ
<p>धरोहर राशि (ईएमडी) बोलौ वृद्धि राशि प्रतिभागिता पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय दिनांक 24-09-2017 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक</p>								
6.	श्री नरिन्दर (स्वर्गीय) एवं श्रीमती किरण पत्नी श्री नरिन्दर	श्री कुलदीप बम्बर पुत्र श्री सुव्यामन लाल	23-08-2017 तक ₹. 54,48,175/- + उस पर 01-10-2012 से ब्याज + खर्च एवं लागतें मांग सूचना की तिथि : 01-11-2012	श्री नरिन्दर (स्वर्गीय) एवं श्रीमती किरण पत्नी श्री नरिन्दर	भूमि और भवन, प्लॉट नंबर ए-9 पर निर्मित फ्लैट सम्पूर्ण सुतीय तल, ब्लॉक-ए में, दिलशाद कालोनी शाहदरा, दिल्ली, परिमाण 201.4 वर्ग	भूमि और भवन, प्लॉट नंबर ए-9 पर निर्मित फ्लैट सम्पूर्ण सुतीय तल, ब्लॉक-ए में, दिलशाद कालोनी शाहदरा, दिल्ली, परिमाण 201.4 वर्ग	₹. 69.36 लाख	तिथि : 25-09-2017 समय : दो घंटे दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ